

Dated: 04.09.2021

To,
The Manager,
Department of Corporate Affairs,
BSE Limited, PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400001

Sub: Submission of Newspaper advertisement for intimation of 27th Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 28th Day of September, 2021 at 11:00 A.M.

Ref: IEC EDUCATION LIMITED ("the Company")

Dear Sir/Madam,

With reference to captioned subjected and in pursuant to the regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are forwarding herewith the copies of newspaper clippings of intimation of Annual General Meeting of the Company which is scheduled to be held on Tuesday, 28th Day of September, 2021 at 11:00 A.M. through video conferencing (VC) and other audio-visual means (OAVM)., published on Saturday, 04th Day of September, 2021 in "Financial Express" (English Language) and Jansatta (Hindi Language).

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking You,

On behalf of the Board

or IEC Education Limited

Navin Gupta

Managing Director

DIN: 00097128

IEC EDUCATION LIMITED CIN: L74899DL1994PLC061053

FINANCIAL EXPRESS

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 29th Day of September, 2021 at 11:30 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM). The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company at the registered office of the Company to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company's 36th Annual Report along with notice convening the AGM, have already been sent through electronic mode on 01st September, 2021 to all the members whose email ids are registered with the Company and/or Depositoriesin accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8th, 2020, read with its circulars dated April, 13th 2020, May 5th, 2020 and January 13th 2021 and circular issued by Securities Exchange Board of India dated May 12th, 2020 and January 15th 2021 The Notice of the 36th AGM and Annual Report for the F.Y. 2020-21 is also available on the Company's website i.e. www.kalpacommercial.in.

KALPA COMMERCIAL LIMITED

read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended upto date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company is pleased to provide to Members the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system (remote e-voting as well as e-voting on the day of AGM) provided by NSDL. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficia Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Wednesday 22nd September, 2021 shall be entitled to avail the facility

2021 (9.00 am) and ends on Wednesday, 29th September, 2021 (5.00 remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during

Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act. 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Thursday, 23rd September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 36th Annual General Meeting of the Company.

shareholder of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut off date; may obtain login Id and password by sending a request to evoting@cdsl.co.in. However, f he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he she can use his/her existing user ID and password for casting the votes. In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of www.evoting.cdsl.com or call on toll free no. 18001020990, 1800224430, or contact Ms. Daksha Agarwal, Company Secretary & Compliance Officer, at e-mail a dakshaagarwal@ymail.com

Company Secretary

FORM NO INC-26 [Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another Before the Central Government Northern Region

the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act. 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

n the matter of Cygnus Medicare Private Limited having its registered office at Unit No-306, Third Floor, DLF Star Tower Sector-Gurgaon HR 122001.

Notice is hereby given to the general public that the Applicant Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the situation clause of its memorandum of association in terms of the special resolution passed at the annual general meeting held on December 30, 2020 to enable the Applicant Company for shifting its registered office from the "State of Haryana" to the "State of National Capital Territory of Delhi".

by the proposed change of the registered office of the Applicant Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his/her/its objections supported by an affidavit stating the nature of his/her/its interest and grounds of opposition to the REGIONAL DIRECTOR. NORTHERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, B-2 WING, 2ND FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003, within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice with copies to the Applicant Company at its current registered office address mentioned above and to the below mentioned communication address of the

CYGNUS MEDICARE PRIVATE LIMITED CIN: U85190HR2011PTC064120 Main New Delhi-110016

Place: Gurgaon

Date: 04.09.2021 DIN: 02018688

Ĉ)lassifieds

Singh Gulati R/o 6/43 Double Storey Flats, Kabool Nagar, Shahdarahave changed my name to Maninder Singh Gulati. 0060083653-

PUBLIC NOTICE

ate Gyan Chand Kaushal R/o BE-337. Illn Floor, Street No.6, Hari Nagar, New Delhihas severed their relations from their son Abhishek Kaushal S/o Mahinder Pa and (daughter-in-Law) Swati Rehal W/ Abhishek Kaushal & (grand son) Reyansh Kaushal S/o Abhishek Kaushal R/o BE 137, Illird Floor, Street No.6, Hari Nagar New Delhi-64, disowned & debarred then rom all moveable & immovable properties and shall not be responsible for their acts deeds and things done by them in past esent and future. Anyone who deals with em shall be doing at their own cost and risks and my above clients will not be held केनरा बैंक \Delta Canara Bank

POSSESSION NOTICE Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the CANARA BANK under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) hereinafter referred to as "the Act" and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with the Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice on the dates mentioned against each account (details of which have been mentioned hereunder) calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notices within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the Authorised Officer has taken possession of the Property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said rule. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the properties will be subject to the charge of CANARA BANK Branches, mentioned below for an amounts and interest thereon.

Name & Address Outstanding **Demand Notice** of Borrowers / Immovable Property Amount Date of Guarantor/ A/C No. Possession Notice Branch: RAH, Lucknow Borrowers: Sri Mahendra House No. C-3/20, Vikalp Khand-3, Gomt 08.04.2021

& Smt. Nirupama Singh W/o Boundaries: East: Road wide 12 Mtr. West and interest Sri Mahendra Singh. Plot No. 3/79. North: Plot No. 3/19. South: Plot

Date: 04.09.2021, Place: Lucknow

JDS FINANCE COMPANY LIMITED

Email: info@jdsfinance.in

NOTICE OF 37" AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

Finance Company Limited will be held on Monday, 27"September, 2021 at 3:00 P.M. (IST) at 367, Kohat Enclave, Pitampura, and Delhi-110034, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of the 37 AGM along with the Annual Report 2020-21through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular. The Annual Report 2020-21 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 37"AGM is available on the website of the Stock Exchanges. A copy of the same is also

In compliance with relevant provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules and other applicable provisions, the Company is providing the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM through NSDL, detailed instructions are given in the Notice of the AGM. The remote e-voting shall commence on 24" September, 2021 at 9AM and end on 26" September, 2021 at 5 PM. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on 20"September, 2021 ('Cut-Off Date'). Any person who acquires sharesand becomes a Member after the dispatch of the Notice and holds shares as on Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.inor may contact on toll free number 1800-222-990

Book Closure:

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21"September, 2021to 27"September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 37"AGM.

Members (Physical and demat holders) who have not yet registered their e-mail addresses are requested to send request to company on info@idsfinance.in. along with email addresses and scanned copy of PAN to receive the Notice of the AGM and Annual Report

By order of the Board

Place : Delhi Date: 03.09.2021

Kriti Ahuja Company Secretary & Compliance Officer

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052 Ph: 011-42952500, Fax: 011-42952555 **E-Mail:** info@sfclindia.com, **Website:** www.sfclindia.com

NOTICE OF 32[™] ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE,

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS, BOOK CLOSURE ETC Notice is hereby given that:

FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED will be held on Wednesday, the 29th September, 2021 at 3:00 p.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without physical presence of the Members at a **common venue**, to transact the business as delineated in the notice served to the members individually at their registered e-mail addresses, in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April 2020 and 5th May, 2020 respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MC Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020

("said SEBI Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEE

Circular"), without physical presence of the Members at a common venue.

to all members through e-mail, whose e-mail ids are registered with Registrar & Transfer Agent / Depository Participants. For Members, who have not registered their email address with the Company/Depository can obtain Notice of 32nd AGM, Annual Report and/or login details for joining the 32nd AGM the VC/ OAVM facility including E-voting, by sending email to info@sfclindia.com or rta@alankit.com. Members can join and joining the 32nd AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during 32nd AGM are provided in the Notice of the 32nd AGM. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be counted for the Annual Report 2020-21 including the Notice of the 32nd AGM is being mailed to all the 27th August, 2021. Annual Report 2020-21 including the Notice of the 32nd AGM of the grievance on the Company's e-mail ID info@sfclindia.com or write to Company at its

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) as an authorized agency to provide E-voting Facility and the Company is pleased to provide to the members the facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of the business placed at the 32nd Annual General Meeting through remote e-voting as well as the remote e-voting during the AGM through VC/ OAVM.

registered address. The Notice of the 32nd AGM and the Annual report will also be

The remote e-voting period commences on 26th September, 2021 at 9:00 a.m. and ends on 28th September 2021 at 5:00 p.m. the remote e-voting disabled by NSDL for voting thereafter. The remote E-voting facility is available at the link https://www.evoting.nsdl.com

The members participate in the 32nd AGM, through VC/OAVM facility who have not cas their vote through e-voting, they can cast their vote through remote e-voting system during the 32nd AGM. The members who have cast their vote prior to the 32nd AGM through remote e-voting may also participate in the 32nd AGM through VC/OAVM facility However, such members shall not be entitled to cast their votes again. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital o the Company as on the cut-off date of 22nd September, 2021. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd September, 2021, may obtain In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for

members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990. Members may also write to the Company Secretary a info@sfclindia.com

Proprietor of Harvinder singh & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the Poll at the annua general meeting in a fair and transparent manner. The results of voting shall be declared not later than 48 hours of conclusion of the meeting and the same shall be notified to the Stock Exchange and shall be uploaded on the website of the Company. Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10(1) of the Companies (Management 8 Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the Listing Regulations, The Register of members and shares transfer book shall remain closed from Thursday, 23rd day of September, 2021 to Wednesday, 29th day of September, 2021 (both days inclusive), for the purpose of the AGM.

Members holding shares in Physical form who have not registered their email address with the Company/Depository can obtain Notice of 31st AGM, Annual Report and/or login details for joining the 32nd AGM the VC/ OAVM facility including E-voting, by sending scanned copy of the documents by email to info@sfclindia.com of

b. Self-attested scanned copy of PAN CARD; and

Licence, Election identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

with their Depository. The above information is being issued for the information and benefit for all the

For Supraneet Finance and Consultants Limited

PERSONAL

I, Maninder Singh S/o Balwant

ponsible of their acts hereafter

Shiv Datt Atri (Advocate SR-II-B, Janakouri, Delhi-110058

★ GANPATI PLASTFAB LIMITED CIN: L25209RJ1984PLC003152 Registered Office: 334, Shekhawat Mansingh Block, Nemi Sagar Colony,

Queens Road, Jaipur-302016, Ph: 0141- 4023650 Email: secretarygpl84@gmail.com Website: www.gpl.co.in INFORMATION REGARDING 37" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE

HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS The 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of GANPATI PLASTFAE LIMITED ("The Company") will be held at 03.00 P.M on Monday, September 27

2021 through Video Conferencing ("VC") and audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 read with General Circular No. 20/2020, 14/2020, 17/2020 and 02/2021 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of AGM. In pursuance of the MCA Circulars and SEBI circulars, Notice of AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 ('Annual Repor 2020-21"), will be sent only through email to those members whose email address are registered with the Company. These documents will also be available on the Website of the company at www.gpl.co.in and stock exchange at www.cse-The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on

resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-Voting") and the Business set out in the notice of AGM may be transacted through E-voting . The company has engaged CDSL to provide the facility of remote Evoting to the members and facility of the E-Voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM through the CDSL E-Voting System. Members can access the same at www.evotingindia.com under shareholder/ member login by using remote E-Voting credentials. The process and manner of remote E-Voting attending the AGM through VC/OAVM and E-Voting during AGM, has been provided

Members holding shares in physical form who have not registered their email in with the Company/Depositories may obtain Annual Report and user id and password for e-voting by providing necessary details: For Physical shareholders- please provide necessary details like folio no. name of

shareholder, scanned copy of share certificate (front and back), PAN(self attested) Aadhaar (self attested) by e-mail to the Company at or to Registrar and Transfer Agent at nichetechpl@nichetechpl.com For Demat shareholder:- please provide Demat Account Details (CDSL-16 digi

beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID+ CLID). Name, client master or copy of consolidated Account statement, PAN (self attested copy of PAN) Aadhaar (self attested) by e-mail to the Company at secretarygpl84@gmail.com or to Registrar and Transfer Agent at nichetechpl@nichetechpl.com By order of the Board

For GANPATI PLASTFAB LIMITED Rakshanda Jain

Place : Jaipur Date: September 04, 2021

Company Secretary & Compliance Officer RAMSONS PROJECTS LIMITED

CIN-L74899DL1994PLC063708

Redg. Office - 815, 8th Floor, Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi-11001 Phone No.: +91-0124-4679000 Email: rplcorprelations@sasgroup.in, Website: www. ramsonsprojects.com

NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the Members of **RAMSONS** PROJECTS LIMITED will be held on Monday, 27th September 2021 at 12:00 P.M., through two way Video Conferencing ('VC') facility / other audio visual means ('OAVM') only, ir compliance with all applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated January 13, 2021 read with General Circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars' and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated May 12, 2020, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast at https://www.linkintime.co.in. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of Quorum under Section 103 of Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the 27th AGM and the standalone financial statements for the financial year 2020-21, along with Board's Report, Auditors Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) on 27/08/2021. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vides MCA Circulars and the SEBI Circular. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.ramsonsprojects.com and on the website of the Stock Exchange i.e., BSE limited at www.bseindia.com and or the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited (LIIPL) at https://www.linkintime.co.in.

Manner of casting vote(s) through Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all resolutions set out in the Notice of the AGM. The facility of remote e-voting shall be available and will be open for e-voting as per the below given e-voting schedule and Insta Poll will be provided for voting at the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM, and for this purpose, the Company has appointed LIIPL for facilitating voting through electronic means and Insta Poll at AGM. The Company has availed the remote e-voting services as provided by LIIPL.

The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-voting facility would be available during the following period: Commencement of remote e-voting 24.09.2021 from 9.00 a.m.

End of remote e-Voting 26.09.2021 at 5.00 p.m. The remote e-Voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time The Cut-off date for the purpose of ascertaining Members who are eligible to cast their vote through e-voting and voting at the AGM is 20.09.2020.

b. The facility of e-voting i.e. Insta Poll system shall also be made available for the

Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility

- purpose of conducting the poll during the Meeting and the Members attending the Meeting through VC or OAAM, who have not already casted their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right to vote during the Meeting. c. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of
- of remote e-voting before / during the AGM. d. Any person who becomes member of the Company after sending of the notice of AGM but before the cut-off date may obtain the User Id and password by sending

a request at request at enotices@linkintime.co.in

- corprelations@ramsonsprojects.com. e. Members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.
- If any member of the Company is facing any issue while logging in or connecting to the e-voting or VC/OAVM facility, for and during the Meeting, they may write or
- contact to LIIPL to instameet@linkintime.co.in or contact on: 022-49186175 or at Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1, Block Near Savitri Market, Janakpuri New Delhi 110058, to get the redressal. Manner of Registering and updating email addresses:

Members may register/ update their email id with the Company/ RTA/ Depository by making a request at corprelations@ramsonsprojects.com. While sending the request, Members

are requested to keep the subject as 'Update/ Register the Email ID - (mention DP Id/Client ID/Folio No.)', and also requested to send their self certified copy of Pan Card. Shareholders/ Members are requested to send the request for the same before the book closure to allow the company/ RTA to do the needful. **Book Closure:** Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder

> By the order of the Board of Directors Ramsons Projects Limited

Date: 04.09.2021

28

available on the website of the Company at www.orosil.com, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com

Corp. Office: A-9A, Ground Floor, Green Park E-Mail: compliance@cygnushospitals.com

> DR. SHUCHIN BAJAJ Director

(Managing Director) DIN: 00003629

Fax: +91-11-23324136

NOTICE The 77th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 30, 2021 at 10.30 a.m. at 4. Scindia House. New

and Share Transfer books of Equity Shares of the Company will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive). Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read

with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules.

2014, as amended, the Company is offering to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Annual General Meeting by electronic means and the member may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The detailed communication relating to remote e-voting inter-alia containing User ID and Password along with the copy of Notice for the meeting and

The Company has engaged the services of KFin Technologies Private The remote e-voting facility shall commence on September 27, 2021 from

permitted mode and this communication and Notice of the meeting are also

9.00 a.m. (IST) and end on September 29, 2021 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. September 23, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

September 23, 2021, may obtain the User ID and Password by sending a request at shyam.kumar@kfintech.com or contact at 040-67162222. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through polling paper shall also be made available at

the Members/ Beneficial owners may contact at the following address: Mr. N Shyam Kumar, Manager, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad-500032, No.040-67162222;

(Sonal Popli) Company Secretary Place: New Delhi Membership No: A44167 Date: 03rd September, 2021

IEC EDUCATION LIMITED CIN: L74899DL1994PLC061053 Regd. Office: M-92, Connaught Place, New Delhi-110001

INFORMATION Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (the "AGM") of "IEC EDUCATION LIMITED" will be held on "28" September, 2021 at 11:00 A.M." through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means ("the VC/OAVM") to transact the business enlisted in the Notice of AGM. In view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its general circular no. 02/2021 dated 13th January, 2021 and general circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with general circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 and general circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Securities and Exchange Board of India circular no. SEBI/HO/CFD/2CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as applicable Circulars") has permitted holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a commor venue. In compliance with the provisions of the Companies Act. 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing

- In accordance with the said circulars, the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith have been sent by email to all those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s), as on 27th August, 2021. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.iecgroup.in and also at the websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and can be downloaded therefrom. The Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evoting.cdsl.com.
- The Shareholders whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, 21st September, 2021, shall be entitled to avail the e-voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) set out in the Notice are cast by any Shareholder, the same cannot be changed subsequently.
- as on the cut-off date, i.e., Tuesday, 21st September, 2021 should treat the Notice for The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding
- of the AGM. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM,
- Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of Notice may obtain Login ID and Password for Remote evoting by going through instructions in the Notice of e-voting. NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the
- Company will be closed from 21st September 2021 to 28th September 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For the purpose of attending the Annual General Meeting of the Company, the shareholders are apprised that once you are logged in on to the CDSL e-voting

Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the

by clicking the option. 10. In case of any queries or issues regarding e-voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at "www.evotingindia.com", under help section or write an email to "helpdesk.evoting@cdslindia.com" or call "e-Voting Service Provider's No. (022-23058738, 022-23058543, 022-23058542)" or rta@alankit.com. The helpline no in

> Navin Gupta **Managing Director**

the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21.09.2021 to 27.09.2021 (both days inclusive) for the purpose of 27thAGM of the

Megha Goel **Company Secretary**

Members holding shares in demat Form are requested to update their email address

financialexp.epapr.in

Dated: September 03, 2021

Place: Noida

and on the website of NSDL i.e. www.evoting.cdsl.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013

The remote e-voting period will commence on Sunday, 26th September pm). During this period the Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Facility of e-voting shall also be made available at the AGM and Those members, had not cast their votes on the Resolutions through

Any person, who acquires shares of the company and becomes

For Kalpa Commercial Limited Daksha Agarwal

Place: New Delhi Date: 04.09.2021

STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch-I 1st Floor, 23, Najafgarh Road, New Delhi-110015, Tel: 011-25419177, 25412977, E-mail : sbi.05169@sbi.co.in POSSESSION NOTICE

(Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the authorized officer of the State Bank of India.

Stressed Assets Recovery Branch, 23, Najafgarh Road, Delhi - 110015, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 01/04/2021 calling upon the Borrower M/s Sethi Agencies, Mr. Anuj Sethi & Mr. Pankaj Sethi and Guarantor Mrs. Anita Sethi, Mrs. Sangeeta Sethi and Mr. Satdev Soni to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9,17,49,238/-(Rs Nine Crore Seventeen Lakh Forty Nine Thousand Two Hundred Thirty Eight Only) as on 31/03/2021 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 01/04/2021.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower. Guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules on this 02.09.2021 The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India Stressed Assets Recovery Branch, 23, Najafgarh Road, Delhi - 110015, for an amount Rs. 9,17,49,238/- (Rs Nine Crore Seventeen Lakh Forty Nine Thousand Two Hundred Thirty Eight Only) as on 31/03/2021 plus interest and incidental expenses incurred by bank w.e.f. 01/04/2021

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act,

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Equitable Mortgage of Residential Building bearing survey No. V-38, Situated at V-38, 2nd Floor, Rajouri Garden New Delhi 110027 admeasuring 200 sq. Yards in the

shares held in physical form).

Contact No.: 9810157189.

in respect of time available, to redeem the secured assets.

name of Sh. Anuj Sethi, Smt. Anita Sethi and Smt. Sangita Sethi. Authorised Officer, State Bank of India Date: 02-09-2021, Place: New Delhi

10 SYSTEM LIMITED CIN: L65921UP1987PLC008764 Regd. Office: Global Knowledge Park, 19A & 19B, Sector-125,

Noida-201301 (U.P.) **Ph.:** +91-120-3355131

Website: www.iosystem.in, E-mail: iosystemltd@gmail.com

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of IO System Limited will be held on **Sunday, September 26, 2021** at 11:00 a.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual **Means ("OAVM")** to transact the business as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM alongwith the aforesaid Annual Report on

September 3, 2021. The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in Demat form) or with Mas Services Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of

Members are hereby informed that the notice of the 33rd AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (www.iosystem.in). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast

their votes electronically on the resolutions to be passed at the 33rd AGM. The

Members are further informed that the cut-off date for the purpose of

ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as

Sunday, September 19, 2021. A person, whose name is recorded in the register

of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM. The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Thursday, September 23, 2021 at 9:00 a.m. and will remain open upto Saturday, September 25, 2021 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can

but shall not be entitled to cast their vote again during AGM. The Company has appointed Mr. Amit Jain (Membership No. and C.P. No.509349), Chartered Accountant, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The detailed procedure/instructions for remote e-voting, attending AGM and

e-voting during AGM are contained in the Notice convening 33rd AGM. The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website of NSDL: www.evoting.nsdl.com or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Mr. Dinkar

Sharma, Company Secretary, e-mail address: iosystemltd@gmail.com,

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at investor@masserv.com with a copy marked to the Company at iosystemltd@gmail.com alongwith his / her / its relevant particulars i.e. DP ID & Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for

mode he/she can generate password as explain in e-voting instruction. Since the 33rd AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC/ OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the

Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and

the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday,

e-voting. If shareholder is individual shareholder and hold shares in demat

September 20, 2021 to Sunday, September 26, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 33rd AGM. By order of the Board of Directors, For IO SYSTEM LIMITED, Sd/-

Arun Seth

DIN: 00007895

Director

Date: 03.09.2021

Petitioner

Any person whose interest is likely to be affected

For and on behalf of the Applicant CYGNUS MEDICARE PRIVATE LÍMITED

Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OVAM") facility n compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, read with circular dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circular dated 15th January, 2021 and 12th May 2020 issued by the SEBI ("SEBI Circular"), without physical presence of the

OROSIL SMITHS INDIA LIMITED

CIN: L74110DL1994PLC059341

Read, Office: Flat No. 620, Hemkunt Chambers,

89, Nehru Place, New Delhi-110019

Phone No.: 0120-4125476

Email Id.: info@orosil.com, Website: www.orosil.com

NOTICE TO THE MEMBERS - 27TH ANNUAL

GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 27th Annual General Meeting ("AGM")

of Orosil Smiths India Limited ("the Company") will be convened

on Wednesday, 29th September, 2021 at 12,00 P.M. through Video

The Notice of the 27th AGM and the Annual Report for the year 2020-21 including therein the Audited Financial Statements for financial year ended 31st March, 2021, are being sent only by email to the Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants n accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular The members can join and participate in the 27th AGM through VC/OVAM facility only. The instructions for joining the 27th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or e-voting during the 27th AGM are mentioned in the Notice of 27th AGM. Attendance of the Members of the Company, participating in the 27th AGM through VC / OAVM Facility will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act. 2013. The Notice of the 27th AGM will also be

The Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company and who wish to receive the Notice of the 27th AGM and the Annual Report for the year 2020-21 and/or login details for joining the 27th AGM through VC/OAVM facility including e-voting, can now register their e-mail addresses with the Company. For this purpose, they can send scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the e-mail address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at cs@orosil.com. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their

> For Orosil Smiths India Limited B. K. Narula

Place: Noida Date: September 04, 2021 **ALIROX ABRASIVES LIMITED**

CIN: L74899DL1944PLC000759 Tel:+91-11-23457100; E-mail: snccil@dalmiarf.com; Website: www.alirox.com

Regd. Office: 4, Scindia House, New Delhi-110001

Depository Participant(s) only.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members

Annual Report FY2020-21 has been dispatched to the members in the

available on the website of the Company at www.alirox.com and on the website https://evoting.kfintech.com Limited as the Authorized Agency to provide remote e-voting facilities.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e.

the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting. In case of any queries / grievances relating to voting by electronic means,

shvam.kumar@kfintech.com. For Alirox Abrasives Limited

Website: www.iecgroup.in E-mail: cs@iecgroup.in Ph: 011-41052893 NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through

The remote e-voting will commence on Friday, 24th September, 2021 at 9.00 A.M. and end on Monday, 27th September, 2021 at 5.00 P.M. A person who is not a Shareholder

shares in physical mode or dematerialized mode and for the Members who have not registered/updated their E-mail addresses with the Company, is provided in the Notice may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

portal and entered Company's EVSN, there shall be a menu at the extreme bottom "LIVE STREAMING NOW". You can join the Annual General Meeting of the Company

case of any assistance is 011-42541127, which may be contacted for any assistance. For IEC EDUCATION LIMITED Place: New Delhi

Company for the financial year 2020-21.

Place: Gurugram

New Delhi

Place: Delhi Date: 3rd September, 2021

My clients Mrs. Santosh Kaushal W/o Mahinder Pal and Mr. Mahinder Pal S/o

81,36,771.99 Nagar Lucknow- 226010, Area: 200 Sq.Mtr. Singh S/o Sri Ajay Pal Singh 01.09.2021

Authorized Officer, Canara Bank

CIN: L65999DL1984PLC018035 Regd Off: 500, 5th Floor, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi North Delhi DL 110034 IN

NOTICE is hereby given that the 37 Annual General Meeting (AGM) of the members of JDS

available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

as provided by NSDL

Registration of e-mail addresses: 2020-21 electronically and to receive login ID and password for remote e-Voting.

CIN: L65921DL1989PLC035261

1. The 32nd ANNUAL GENERAL MEETING of the members of the SUPRANEET

The AGM Notice detailing the inter-alia the instruction for joining the 32nd AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during 32nd AGM, Annual Report for the Financial Year 2020-21 have been sen participate in the 32nd AGM through VC/OAVM facility only. The instruction for purpose of reckoning the quorum under the section 103 of the Companies Act, 2013 members, whose names appear in the Register of Members/list of beneficial owners as furnished by the Depositories as at the close of business hours on Friday, the Company detailing inter-alia the process and the manner of e-voting, is also available on the Company's website www.sfclindia.com and may be accessed or downloaded there-from. The members may register their request for any other communication or

available on the website of the Company i.e. www.sfclindia.com and the website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited i.e. www.msei.in

the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in

5. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Harvinder Singh,

a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address. c. Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAAR Card, Driving

Members of the Company and is in Compliance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular.

> Deepti Jain **Company Secretary**

exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM,

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN- L21015UP1980PLC005138) REGD. OFFICE: VILL BHAINSA, 22KM STONE, MEERUT- MAWANA ROAD. MAWANA, UP-250 401, PHONE: 01233-271515, 271137,

e-mail: sangalinvestors1980@gmail.com, website: www.sangalpapers.com

NOTICE Notice is hereby given that the 41" AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 29th September, 2021, Wednesday at 01.00 p.m. through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with general circular dated January, 13 2021 read with circulars dated April 8, 2020 April 13, 2020 and May 5, 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2020-2021 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositories. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

If your email ID is already registered with the Company, Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2020-2021 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2020-2021

and login details for e-voting. Physical Send a request to Registrar and Share Transfer Agent Holding of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of

> the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34, 2rdFloor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi

110020 along with letter mentioning folio no. if not registered already.) Please contact your Depository Participant (DP) and Holding register your email address as per the process

> advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2020-2021 will also be available on Company's website at www.sangalpapers.com and also on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For Sangal Papers Limited

Demat

Sd/-

Place: Mawana (Arpit Jain) Company Secretary Date: 03.09.2021

IEC EDUCATION LIMITED CIN: L74899DL1994PLC061053 CIN: L74899DL1994PLC061053 Regd. Office: M-92, Connaught Place, New Delhi-110001 Website: www.iecgroup.in E-mail: cs@iecgroup.in Ph: 011-41052893 NOTICE OF 27[™] ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING NFORMATION

- Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (the "AGM") of "IEC EDUCATION LIMITED" will be held on "28" September, 2021 at 11:00 A.M." through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means ("the VC/OAVM") to transact the business enlisted in the Notice of AGM. In view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its general circular no 02/2021 dated 13th January, 2021 and general circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with general circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 and general circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Securities and Exchange Board of India circular no. SEBI/HO/CFD/2CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as applicable Circulars") has permitted holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through
- financial year 2020-21 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith have been sent by email to all those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s), as on 27th August, 2021. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.iecgroup.in and also at the websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and can be downloaded therefrom. The Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evoting.cdsl.com. The Shareholders whose names appear in the Register of Members or in the Register

In accordance with the said circulars, the Notice of AGM and the Annual Report for the

- of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, 21st September, 2021, shall be entitled to avail the e-voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) set out in the Notice are cast by any Shareholder, the same cannot be changed subsequently. The remote e-voting will commence on Friday, 24th September, 2021 at 9.00 A.M. and
- end on Monday, 27th September, 2021 at 5.00 P.M. A person who is not a Shareholder as on the cut-off date, i.e., Tuesday, 21st September, 2021 should treat the Notice for
- . The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding shares in physical mode or dematerialized mode and for the Members who have not registered/updated their E-mail addresses with the Company, is provided in the Notice
- . The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM
- Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of Notice may obtain Login ID and Password for Remote evoting by going through instructions in the Notice of e-voting.
- . NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from 21st September 2021 to 28th September 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
- . For the purpose of attending the Annual General Meeting of the Company, the shareholders are apprised that once you are logged in on to the CDSL e-voting portal and entered Company's EVSN, there shall be a menu at the extreme bottom
- "LIVE STREAMING NOW". You can join the Annual General Meeting of the Company 0.In case of any queries or issues regarding e-voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at

"www.evotingindia.com", under help section or write an email to "helpdesk.evoting@cdslindia.com" or call "e-Voting Service Provider's No. (022-23058738, 022-23058543, 022-23058542)" or rta@alankit.com. The helpline no in case of any assistance is 011-42541127, which may be contacted for any assistance. For IEC EDUCATION LIMITED

Place: New Delhi Navin Gupta Date: 03.09.2021 Managing Director

अलेशिक्स एबेसिट्स लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय : 4. सिंधिया हाउस. नई दिल्ली-110001 सीआईएन : L74899DL1944PLC000759

दुरभाष : +91-11-23457100; फैक्स : +91-11-23324136 ई-मेल : snccil@dalmiarf.com; वेबसाइट : www.alirox.com

कम्पनी की 77वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 10.30 बजे पूर्वाह्न को 4, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली-110 001 पर आयोजित की जायेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की इक्विटी

दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली 2014, यथा संशोधित के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कंपनी इलेक्टॉनिक माध्यमों से वार्षिक साधारण सभा में पारित होने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार के प्रयोग की सविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है तथा सदस्य सभा के किसी अन्यत्र स्थान से इलेक्टॉनिक

शेयरों के शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 (दोनों

वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत संवाद जिसमें अन्य विषयों के साथ सभा की सचना की प्रति तथा एफवाई 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ युजर आईडी तथा पास्वर्ड शामिल हैं, स्वीकृत पद्धित में सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है तथा निर्देशों के साथ सभा की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.alirox.com तथा वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में कंपनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 27 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे सायं (आईएसटी) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2021 को सदस्यों/ लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ सभा में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

यदि कोई व्यक्ति सभा की सचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बने हों तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करते हों, वे shyam.kumar@kfintech.com पर अनरोध भेजकर अथवा 040-67162222 से संपर्क कर यजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए हों. वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकत नहीं होंगे।

सभा में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई- वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित किसी पूछताछ/ समस्या के लिए सदस्य/ लाभभोगी स्वामी निम्न पते पर संपर्क करें:

श्री एन श्याम कमार, प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाछीबावली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,, हैदराबाद- 500032, फोन नं.: 040-67162222, ई-मेलः shyam.kumar@kfintech. com

स्थानः नई दिल्ली

तिथि:3 सितम्बर, 2021

अलीरॉक्स एब्रेसिव्स लिमिटेड के लिए (सोनल पोपली) कंपनी सचिव सदस्यता सं.: ए४४१६७

आरसीआई इण्डस्टीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : इकाई सं. 421, चौथी मंजिल, पर्ल ओमेक्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

सीआईएन : L74900DL1992PLC047055 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), ई-वोटिंग जानकारी तथा बुक क्लोजर की सूचना एतद्वारा सुचना दी जाती है कि 30वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित के अनुसार व्यवसाय के लेन-देन के लिए कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 को 10.30 बजे

दुरभाष : +91 11 41681828, +91 11 27371334

वेब : www.rciind.com, ई-मेल : compliance@rciind.com

पूर्वा. (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित भारतीय प्रतिभित और विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा कॉपोरेंट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अन्य लाग परिपत्रों और

सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआरपी/पी/2020/79 सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार 30वीं एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में केवल उन सदस्यों के पास भेजी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 03 सितंबर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.rciind.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) िनियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से अपने सदस्यों को वीसी/ओडब्ल्यवीएएम सविधा के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से मतदान करने एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में प्रक्रिया/निर्देश-एजीएम की सचना के नोटस में प्रदान किए गए हैं।

कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2021 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा एजीएम में मतदान के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, रिमोट ई-वोटिंग अविध सोमवार 27 सितंबर 2021 (09.00 पूर्वा. भा.मा.स.) पर शुरू होगी और बुधवार 29 सितंबर, 2021 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एक संकल्प पर वोट देने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और सुचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 23 सितंबर 2021 तक शेयर रखता है, वह evoting@insdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते

श्री गौरव शाह, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएसः 46647), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया

सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पृछना चाहते हैं, वे 23 सितंबर, 2021 तक या इससे पहले अपना नाम. डीमैट खाता / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के पास अपने पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से compliance@roiind.com पर हस्ताक्षरित अनरोध पत्र की प्रति के साथ शेयरधारकों के नाम और पते. पैन/अन्य पहचान और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते

डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट करें।

ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders और e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 या 1800-224-430 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, 4था तल, कमला मिल कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से निर्धारित ईमेल आईडी evoting@nsdi.co.in पर संपर्क करें

कृते आरसीआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली ज्योति शर्मा

तिथि : 3 सितम्बर, 2021 (कम्पनी सचिव

हाऊसिंग डवेल्पमेंट फाईनेंस कारपोरेशन लि. शाखाः डी. नंबर 10-50-19/1, पहली और दूसरी मंजिल, सौदामणि, सामनेः एचएसबीसी, वाल्टेयर मेन रोड, सिरिपुरम, विशाखापटनम-530003 फोन: 0891-6799500, CIN L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

डिमांड नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 3 के साथ पढ़े गए वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभृतिकरण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा

13(2) के अधीन। चुकि, हाऊसिंग डवेल्**पमेंट फाईनेंस कारपोरेशन लि. (एचडीएफसी लिमिटेड**) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधीहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभृतिकरण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए अधिनियम 13 (12) के अधीन शक्तियों के निर्वहन में निम्न विवरण अनुसार संबंधित सुचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सुचना में वर्णित राशि की अदायगी हेतु निम्ननिर्दिष्ट ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना जारी की गई है। अधोहस्ताक्षरी ने यह सूचनाएं कथित ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के उनके अंतिम ज्ञात पतों के परिसरों पर भी चिपकाई हैं। कथित सुचनाओं की प्रतियां अघोहरताक्षरी के पास भी उपलब्ध हैं तथा कथित ऋणियों/कानुनी वारिसों/कानुनी प्रतिनिधियों, यदि वह चाहें यह सामान्य कार्य समय के दौरान किसी कार्यदिवस पर अधोहरताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त के संबंध में, फिर से एतद्द्वारा सुचना दी जाती है कि कथित ऋणियों/कानूनी यारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेज/लेखन, यदि कोई कथित ऋणियों द्वारा निष्पादित किया गया है के साथ पढ़ी गई अदायगी तथा/अथवा उगाही की तिथि तक कॉलम (सी) में निम्न वर्णित संबंधित तिथियों से कथित मांग सुचना में वर्णित अनुसार आगामी ब्याज @18% वार्षिक के साथ संबंधित नामों में निम्न वर्णित राशि की अदायगी हेतु इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एवडीएफसी लिमिटेड** को अदायगी करने हेतु सुचित किया जाता है। ऋण की चकाया पुनः अदायगी हेतु प्रतिभृति के तौर पर, निम्नलिखित प्रतिभृतित परिसंपत्तियां कथित संबंधित ऋणियों द्वारा एचडीएफसी लिमिटेड को रेहन की हैं। ऋणियों/कानुनी वारिसों/कानुनी प्रतिनिधियों का प्रतिभृतित परिसंपत्तियों की एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों से ध्यान आमंत्रित

蒸 . 税.	ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया राशि	डिमांड नोटिस की तिथि	प्रतिभृतित परिसंपत्तियों∕अचल संपत्तियों का विवरण
(更)	(बी)	(सी)	(ही)	(#)
1.	श्री समां सुनील कुमार (ऋणी) ऋण खाता सं. 605804838	42,72,772/- रू. (केवल विपालीस लाख		धारक प्लॉट नंबर 178, इरियो हैमलेट, सेक्टर 98, एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब और नीचे बताए गए विवरण के अनुसार 252.83 वर्ग यार्ड या 211.39 वर्ग मीटर: पूर्व 21.799 प्लॉट नंबर 179, पश्चिम
	बहत्तर हजार सात सी और बहत्तर रुपए) जो 31 जुलाई, 2021 की बकाया है*			21.788 प्लॉट नंबर 177, उत्तर 9.700 अन्य भूमि, दक्षिण 9.700 12 मीटर चौड़ी पीक (सड़क सी)
* 2	। अटायमी एवं/अथवा जगाही की तिथि तक आग	मी ब्याज @18% वार्षिक ल	नाग अनस्यार अ	। गकस्मिक खर्चे. लागत. प्रभार आदि उपार्जित।

यदि कथित ऋणियों उक्त कथित अनुसार एचडीएफसी लिमिटेड को अदायगी करने में असफल होंगे तो एचडीएफसी लिमिटेड कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू पूर्ण नियमों के अधीन लागतों एवं जोखिम कथित ऋणियों/कानृनी वारिसों/कानृनी प्रतिनिधियों की उक्त प्रतिभृतित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। कथित ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को कथित अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभृतित उक्त प्रतिभृतित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों को हस्तांतरित करने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है, जबकि एचडीएफसी लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमित के बिना बिक्री, लीज अथवा अन्य के साथ सभी से प्रतिबंधित किया जाता है। कोई व्यक्ति जो अधिनियम अथवा उसके

अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों की अवहेलना अथवा उल्लंघन करेगा तो वह अधिनियम के अधीन प्रदान अनुसार सजा तथा/अथवा दंड के लिए जिम्मेदार होगा। कते हाऊसिंग डवेल्पमेंट फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

दिनांक : 03.09.2021

स्थानः विज्ञास्त्रापटनम

पंजीकृत कार्यालय : रेमन हाऊस, एचटी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्च गेट, मुंबई-400020

प्राधिकृत अधिकारी

WobiKwik

वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड (पूर्वतः वन मोबिक्विक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) पंजी. कार्यालय : 5वां तल, हडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-29, गुरूग्राम, हरियाणा-122001

+91 (124) 640-9190 • सीआईएन : U64201HR2008PLC053766 www.mobikwik.com ◆ cs@mobikwik.com 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

(एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के पश्चात) एतदहारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की तेरहवीं (13वीं) वार्षिक सामान्य बैठक, एजीएम की सूचना में सुचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु, शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी), कम्पनी अधिनियम 2013 के सभी लाग प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित एमसीए सामान्य परिपन्न सं. 14/2020. 17/2020 20/2020 तथा 02/2021 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 क्रमानुसार के अनुपालन हेत् वीढियो कॉन्क्रेन्सिंग ("वीसी") अधवा अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, आयोजित की जाएगी।

जक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन हेत्, एजीएम की सूबना, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेत् वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिये उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट / रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, जैसा भी मामला है, के पास पंजीयद्ध है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.mobikwik.com पर तथा कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए), सिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <u>https://instavote.linkintime.co.in</u> पर भी उपलब्ध हैं।

जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं तथा / अथवा जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी / आरटीए / डिपॉजिटरी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है, वे अपेक्षित दस्तावेज और जानकारी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। enotices@linkintime.co.in पर भेजकर अथवा फोन : 022-4918 6000 पर सम्पर्क कर, उसका पंजीकरण करवा सकते हैं तथा एजीएन की सचना एवं वार्षिक रिपोर्ट और वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से कम्पनी की 13वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

एजीएम तथा ई--वोटिंग प्रक्रिया के साथ संबंधित विवरण नीचे दिया गया है :

. रिमोट ई-वोटिंग आरंभ और समाप्त डोने की तिथि एवं समय :-

विवरण	तिथि	समय
रिमोट ई-वोटिंग आरंभन	मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021	प्रातः 9,00 बजे
रिमोट ई-वोटिंग समाप्ति	शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021	सायं 5.00 बजे
ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने	समय के बाद निषेध कर दी जाएगी के अपने अधिकार का प्रयोग करने के ब क में पुनः बोट डालने की अनुमति नहीं	गद भी सामान्य बैठ होगी। यदि सदस्य

वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज मौजूद होगा रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का हकदार होगा। एजीएम में उपस्थित जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, वे अपना

वोट बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा इंस्टा-वोट द्वारा, एजीएम की सूचना में दी गई विधि अनुसार डाल सकेंगे। सदस्यगण जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं तथा वे व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना प्रेषण के पश्चात शेयर अर्जित करते हैं और कम्पनी के शेयरधारक बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 18 शितम्बर 2021 को शेयरों के घारक हैं. वे भी enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल भेजकर

एजीएम की सूचना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अर्थात रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है।

अथवा फोन : 022-4918 6000 पर सम्पर्क कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करके वोट

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के साथ संबंधित विस्तृत अनुदेशों के लिए, सदस्यगण क्पया वार्षिक सामान्य बैठक की सुचना में "नोटस" खंड देखें। यदि शेयरघारकों / सदस्यों को लॉगइन / ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह है, वे राजिव रंजन, ए.वी.पी: (ई-वोटिंग) लिंक इनटाइमा (आरटीए) को instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल भेजकर अथवा फोन : 022-4918 6175 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त सुचना एमसीए सर्कुलर्स के अनुसरण में कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकानी और उनके हितार्थ जारी की जा रही है।

वास्ते वन मोबिविवक सिस्टम्स लिमिटेड (पूर्वतः वन मोबिक्विक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

राहल लुथरा तिथि : 03 सितम्बर, 2021 स्थान : गुरुग्राम कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली-मधुरा रोड, नई दिल्ली 110 076 (भारत) निगमित पहचान संख्याः L24232DL1988PLC030958 दुरभाषः 91-11-26925858, 26925801, फैरसः 91-11-26823629 ई मेल: imclshares@apollohospitalsdelhi.com वेबसाइटः https://delhi.apollohospitals.com/

33वीं वार्षिक आम सभा, रिमोट ई-वोटिंग और बक क्लोजर की सचना

वार्षिक आम सभा

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों के 33वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार २४ सितम्बर, २०२१ को प्रातः १०:१५ बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल सुविधा (ओएवीएम) के माध्यम से आम सभा की सुचना वं अनुसार व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए की जाएगी।

कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) 23 जून, 2021 को परिपन्न के साथ पठित दिनांक 13 जनवरी 2021, 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 8 अप्रैल, 2020, (बाद में सामृहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित), कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम रखने की अनुमति दी गई हैं। इसलिए, इन परिपत्रों कम्पनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताए) अधिनियम 2015, ("सेबी सूचीयन दायित्व") के अनुपालन में, कंपनी के एजीएम का संचालन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस मे प्रदान की गई है। इसके अलावा, उपरोक्त परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआइआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 के साथ पठित सेबी सर्कुलर दिनांक 15 जनवरी, 2021, के संदर्भ में, 33वीं एजीएम की सूचना (जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है) पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गई है, जिनका ईमेल पता कंपनी या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। ईमेल के माध्यम से एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2020—21 के नोटिस को मंगलवार 2 सितंबर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त उल्लिखित सेबी परिपत्र के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं हैं। वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://delhi.apollohospitals.com/ और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमशः पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कम्पनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2014 के नियम 20 जैसा कि संशोधित कम्पनीज (प्रबंधन एवं संचालन) संशोधित नियम, 2015 तथा सेबी (सूचियन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमन 2015 के विनियमन 44 के साथ और इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एस.एस.-2) के अनुपालन में कम्पनी ने सभी सदस्यों को वार्षिक आम सभा सूचना के सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रानिक आधार पर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। वार्षिक आम सभा के अलग स्थान से मत डालने की सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा दी गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक आम सभा सूचना में ई—वोटिंग से सम्बन्धित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ई—वोटिंग सुविधा का विवरण इस

रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 21 सितम्बर 2021 (प्रात: 9.00 बजे) से गुरूवार 23 सितम्बर, 2021 (सायं 5.00 बजे) तक खली रहेगी।

कोई भी व्यक्ति जो, वार्षिक आम सभा की सचना भेजे जाने के बाद, कम्पनी के शेयर खरीदकर कम्पनी का सदस्य बनता है और उसके पास कम्पनी के शेयर कट ऑफ तिथि 18 सितम्बर 2021, पर रहते है, वह एक अनुरोध ईमेल द्वारा evoting@nsdl.co.in पर भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि, कोई व्यक्ति एनएसडीएल के साथ पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए कर सकता है।

iii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 23 सितम्बर, 2021 को शाम 5.00 के उपरान्त एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मत डालने के बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

 iv. जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मत का प्रयोग नहीं किया, उन्हें वार्षिक आम सभा में मत डालने की सुविधा दी जायेगी। सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से मत किया है वे वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते हैं पर वार्षिक आम सभा में पुनः मत करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों का मत अधिकार कॅट-ऑफ तिथि पर धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

v. कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए श्री बलदेव सिंह काष्टवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 3616 और अभ्यास संख्या 3169) को नियुक्त किया है।

vi. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं, जो कि शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या सुश्री मोनी सिहं को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

बुक क्लोजर सचना यह भी दी गई हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार

दिनांकः 03.09.2021

स्थानः नई दिल्ली

और नियमों को सूचीबद्ध विनियमों के विनियमन 42 के साथ पढ़ा गया, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 18 सितंबर, 2021 से शुक्रवार, 24 सितंबर को, 2021 (दोनों दिन मिलाकर) एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगी। कृतेय इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ता./-प्रिय रंजन

एवीपी – कॉर्पोरेट मामलें और कानून तिथि : 03 सितम्बर 2021 (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी) स्थान : नई दिल्ली

हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड

सीआईएन: L80221DL2010PLC207436 पंजीकृत कार्यालयः 1374-1375, कटरा लेहस्वान, चाँदनी चौक, दिल्ली-11006 ई-मेलः hummingbirdeducation@gmail.com

वेबसाइटः www.hummingbirdeducation.com विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा 11वीं वार्षिक साधारण सभा के आयोजन, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा पस्तक बंद होने के विषय में शेयरधारकों के लिये सुचना

एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड (''कम्पनी'') के शेयरधारकों की

11वीं (दसवीं) वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को 1.30 बजे अप. (आईएसटी) में विडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजअल माध्यमी (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा जिसे अलग से शेयर धारकों को ई-मेल किया जायेगा तथा साथ ही जहा<mark>ं</mark> कम्पनी की इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं उन स्टॉक एक्सचैंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाईट (www.evotingindia.com) के साथ कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.hummingbirdeducation.com पर भी उपलब्ध कराया जायेगा। कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए सर्क्युलर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (''एमसीए परिपत्र'') के माध्यम से किसी सामृहिक स्थान पर शेयरधारकों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओएवीएम के द्वारा

एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम''), भारतीय

प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''सेबी

सुचीयन विनियमन'') एवं एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कम्पनी का एजीएम वीसी/ ओएवीएम

द्वारा आयोजित किया जायेगा। एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां: अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। शेयरधारक ध्यान रखें कि एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी की वेबसाईट www.hummingbirdeducation.com पर तथा स्टॉक एक्सचैंजों जहां कम्पनी की इक्विटी शेयर सचीबद्ध हैं, की वेबसाईटों अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा सेन्टल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाईट

(www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होगा। वीसी/ ओएवीएम द्वारा एजीएम में भागीदारी:

शेयरधारक केवल वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित एवं भाग ले सकते हैं (जो सुविधा कम्पनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त की है, जिसका विवरण कम्पनी द्वारा एजीएम की सुचना में उपलब्ध कराया जायेगा। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने वाले शेयरधारकों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी। ई मेल आईडी पंजीकृत/अद्यतन कराने का तरीकाः जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने ई मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि इस प्रकार अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करा लें:

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक : भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल पते अद्यतन नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि नाम तथा शेयरधारक का पता, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कॉपी (फ्रान्ट तथा बैक), पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथा किसी अन्य दस्तावेजों (जैसे ड्राइविंग लाइसैन्स, मतदाता, पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्वतः सत्यापित प्रति, शेयरधारक के पते के समर्थन में, को उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ investor.del@bigshareonline.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अर्थात बिगशेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड ("बिग शेयर") को लिखकर अपना ईमेल पता अद्यतन करा लें।

2. डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों: शेयरधारकों से आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास अपना ईमेल आईडी अद्यतन कराएं।

ई-मेल पते के पंजीकरण में किसी प्रकार के प्रश्नों/ कठिनाईयों के लिए शेयर धारक बिगशेयर के पास investor.del@bigshareonline.com पर लिखें।

एजीएम से पूर्व रखी गई प्रस्तावों का मतदान का तरीका:

कम्पनी एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा भी मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है और यह सुविधा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (www.evotingindia.com पर) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जो सदस्य एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और रीति तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग विंडो 27 सितंबर, 2021 को सबह 9:00 बजे खलेगी और 29 सितंबर, 2021 को शाम 5:00 बजे बंद होगी। 23 सितंबर, 2021 (रिकॉर्ड तिथि/कट-ऑफ तिथि) तक शेयर रखने वाले सदस्य ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, 11वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) के लिए बंद रहेगा। ।

हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड के लिये मयंक प्रताप सिंह कम्पनी सचिव

तिथि: 03.09.2021 स्थानः नई दिल्ली

मैसर्स भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड कार्यालय : 503, रोहित हाउस, 3 टॉल्सटॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 सीआईएन—**L67120DL1992PLC049038**), फोन नंबर : 011—49800900, फैक्स : 011—49800933 ई-मेल : commodities@bharatbhushan.com वेबसाइट : www.bbinvestments.in

उन्तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी रतदद्वारा सुचना दी जाती है कि भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को मध्या. 12.00 बजे भारतीय मानक समय ("आईएसटी"), वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सभी लागु प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 20 / 2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा जनरल सर्कलर नंबर 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और अन्य लाग सर्कलर्स भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचिबद्धता बाध्याताएँ दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") और सेबी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथा सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (सामृहिक रूप से "संबद्ध सर्कलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में सुचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेत् आयोजित की जाएगी। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले

रहे सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी। संबद्ध सर्व्हलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना दिनांकित 06 अगस्त, 2021 तथा वित्तीय वर्ष 2020--21 हेत कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020--21 हेत वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने हेत् अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई—मेल द्वारा शुक्रवार, 03 सितम्बर, 2021 को कम्पनी के उन सदस्यों को 'प्रेषित' कर दी गई हैं जिनका ई–मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकत है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.bbinvestments.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेंड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर

ई-मेल पता पंजीकरण / अद्यतनीकरण की विधि

. भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत / अद्यतित नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसका पंजीकरण / अद्यतनीकरण कम्पनी को commodities@bharatbhushan.com पर अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए") मैसर्स अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड को rta@alankit.com पर शेयरधारक का फोलियो नंबर, नाम, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व—सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की रुकैन की गई रव-सत्यापित प्रति) अथवा डाइविंग लाइसेन्स (रुकैन की गई रव-सत्यापित प्रति) अथवा बैंक पासबक / बैंक द्वारा सम्यक सत्यापित विवरण की स्कैन की गई प्रति का ब्योरा

 अभौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी ("डीपी'ज") के पास पंजीकत / अद्यतित नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई—मेल पता अपने संबंधित डीपी ज के पास पंजीकृत / अद्यतित करवा लें।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014, समय समय पर संशोधित, के नियम 20 तथा सचीयन विनियमावली के विनियम 44 और संबद्ध सर्कलर्स के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा एजीएम की सुधना में सुचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन इस ई–वोटिंग द्वारा किया जा सकता है। कम्पनी ने सदस्यों को रिमोट ई—बोटिंग की सुविधा और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एनएसडीएल को नियुक्त किया है। अभीतिक रूप में भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग अथवा वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने की प्रक्रिया और विधि एजीएम की सुचना में दी गई है। हम आगे सुचित करते हैं कि :

l. रिमोट ई—वोटिंग अवधि रविवार 26 सितम्बर, 2021 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) पर आरंभ होगी तथा मंगलवार 28 सितम्बर, 2021 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) (दोनों दिन सम्मिलित सहित) पर समाप्त होगी, इस अवधि के दौरान सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तद्परांत, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—बोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

 कम्पनी ने ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की योग्यता निश्चित करने के लिए 22 सितम्बर, 2021 "कट-ऑफ" तिथि निर्धारित की है। कोई व्यक्ति, जिसका नाम, डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में, कट-ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तथा एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम

III. सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में उनके द्वारा बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 ("कट—ऑफ तिथि") को धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। IV. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं ढाला है. वे एजीएम में ई-वोटिंग के

माध्यम से अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो सदस्य एजीएम से पहले अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंत् उनको एजीएम में पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। V. कोई व्यक्ति जो कि एजीएम की सुचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयरों का अधिग्रहण

करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और जो कट—ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 को शेयरों का धारक होता है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा commodities@bharatbhushan.com पर अनुरोध भेजकर युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति इस प्रयोजन हेतु एजीएम की सूचना का संदर्भ भी ग्रहण कर सकता है। VI. रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह अथवा शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर "डाउनलोड सेक्शन" के अन्तर्गत उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (एफएक्यू'ज) का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा टोलफ्री नंबर 1800—222—990 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हान्ने, प्रबंधक अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 को नामित ई–मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा SoniS@nsdl.co.in अथवा फोन नंबर : +91-22 24994545, +91 22 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं. जो इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के साथ संबंधित शिकायतों का निवारण करेंगे।

कम्पनी ने सुश्री कब्रिता पम्मानी, स्वामी मैसर्स कविता पम्मानी ऐंड एसोशिएट्स, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरीज (सदस्यता सं. एफ 6288 तथा सीपी सं. 11099) को ई—वोटिंग तथा रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करने हेत् संवीक्षक नियुक्त किया है। कृते एवं हिते निदेशक मंडल

भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड

निशा आहुजा

डीआईएन : 00001875

www.readwhere.com